NEW DELHI | FRIDAY, 15 FEBRUARY 2019 Business Standard

or from the date of actual commencement of work to 31,03,2020" through A.P. GENCO. e-Procurement platform. The approximate estimated value of work: Rs. 4,93,16,783.00 (including GST and statutory provisions.). Tender Schedule Available Date & Time from: 17.00 Hrs. on 12.02.2019 onwards. Tender Submission of Bids closing Date &Time: 12:00 Hrs. on 27.02.2019. Complete details may be obtained from APGENCO's Corporate Website, viz., https://etender.apgenco.gov.in

Notice inviting Tender/SPECIFICATION/(N.I.T) No. 610000465 CEG / SE/GEN.-I: - APGENCO. invites tenders for the work of "Outsourcing of Services for Operation & Maintenance of peripheral area and Incidental of complete equipment in the Mechanical Maintenance Division -3 of Coal Handling Plant of Dr.Naria Tata Rao Thermal Power Station, for the period from 01.04.2019 to 31.03.2020" through A.P. GENCO. e-Procurement platform. The approximate estimated value of work: Rs.4,93,16,783.00 (including GST and statutory provisions.). Tender Schedule Available Date & Time from: 17.00 Hrs. on 12.02.2019 onwards. Tender Submission of Bids closing Date &Time: 12:00 Hrs. on 27.02.2019. Complete details may be obtained from APGENCO's Corporate Website, viz. https://etender.apgenco.gov.in

For more details please visit our website www.apgenco.gov.in

1) Basic :	The second secon	1.63	0.12	
2) Diluted :		1.08	0.08	

Note:

The above is an extract of the detailed format of un-audited financial re ended 31st December, 2018 filed with the Stock Exchange under Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full for quarter and nine months ended 31st December, 2018 are available (www.bseindia.com).

For an

Place: Secunderabad Date: 14.02.2019

Chall

NOTICE

DEBT FUND SERIES

Launch of SBI Debt Fund Series C - 45

Notice is hereby given for launch of SBI Debt Fund Series C - 45 (92 Day scheme. The New Fund Offer (NFO) would be open for subscription February 22, 2019 to close of business hours on February 26, 2019. The in endeavor to provide regular income and capital growth with limited inte investments in a portfolio comprising of debt instruments such as Government and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the amount for investment in the Scheme is ₹5000/- and in multiples of ₹ Plans - Regular and Direct. Both the plans have two options viz. Growth and of the units shall be allowed before the maturity of the Scheme and the Sc (BSE) in order to provide liquidity. For more information on the Scheme, you nearest Official Point of Acceptance of SBI Mutual Fund.

Product Labeling

This product is suitable for investors who are seeking*:

- · Regular income over short term.
- Investment in Debt / Money Market Instrument / Govt. Securities.

*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether t

For SBI Fu

Place: Mumbai

Date: February 14, 2019

SBI MUTUAL FUN

Asset Management Company: SBI Funds Management Private Limit

(A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: U65990h Trustee: SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN: U6: Sponsor: State Bank of India

Regd. Office: 9th Floor, Crescenzo, C - 38 & 39, G Block, E Bandra (E), Mumbai - 400051 • Tel.: 91-22-61793000 • Fa E-mail: partnerforlife@sbirnf.com · Website: www

BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given deemed or construed that the Scheme Information Document has been clea it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Schemi are advised to refer to the Scheme Information Document for the full text of I

> Mutual Fund investments are subject to read all scheme related documents

ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED

CIN: L23423HR1933PLC000097

Regd. Office: Radaur Road, Yamunanagar — 135001, Haryana. Ph: 01732-661061/62, Fax No.: 01732-250991 Email Id: roynr@isgec.com, Website: www.isgec.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the Company has on February 14, 2019 (i) Completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid business reply envelope to the Members, who do not have registered e-mail ids; and (ii) E-mailed the Postal Ballot Notice to the Members who have registered e-mail ids:

for seeking approval of Members, in respect of the business contained in the said Postal Ballot Notice dated February 09, 2019, by way of Postal Ballot/Remote e-voting.

All Members are, therefore, informed that:

- a) The Postal Ballot Notice along with the explanatory statement and other annexures is displayed on the website of the Company www.isgec.com and also on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case a Member is desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate, he or she may send an e-mall to roynr@isgec.com or rta@alankit.com. The Registrar/ Company shall forward the same along with postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Member
- The voting through Postal Ballot and remote e-voting shall commence on Friday, February 15, 2019 at 9:00 a.m. and shall end on Saturday, March 16, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled thereafter and not be allowed beyond 5:00 p.m. on March 16, 2019.
- The voting rights of the Members (through Postal Ballot Form or Remote e voting) shall be reckoned on the Equity Shares held by them as on the close of the business hours on Saturday, February 09, 2019, being cut-off date fixed for this purpose. Members who are not a Member as on the said cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- The Postal Ballot form, duly completed and signed by the Member(s) shall have to be returned in the postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Scrutinizer so as to reach the Scrutinizer not later than Saturday, March 16, 2019 by 5:00 p.m. Any Postal Ballot form received after the said date and time shall be treated as if the reply from the Member(s) has not been received.
- has not been received.

 In case of queries or grievances relating to Postal Ballot/ Remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for Members and Remote e-voting user manual for Members at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.: 1800 222 990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, "A" Wing, 4" Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 at the designated e-mail ids: evoting.gov.nc/monages/com/ or at telephone numbers: 022–24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may send an e-mail to https://www.evoting.gov.nc/monages/com/ or https://www.evoting.gov.nc/
- The results of voting by Postal Ballot will be declared on Monday, March 18, 2019 at 5:00 p.m. at the corporate office at A-4, Sector-24, Noida-201301, U.P. and Registered Office at Radaur Road, Yamunanagar, Haryana-135001. The result along with the scrutinizer's Report will be displayed at the Registered Office of the Company. The result shall be communicated to the Stock Exchange and the same will be displayed on Companies website www.isgec.com as well as on the NSDL website www.evoting.nsdl.com. In addition, the result will also be published in the newspaper for information of shareholders.

For ISGEC Heavy Engineering Limited

(S. K. Khorana)

terly fin v.nseir es ha

Office

:L17

ED FC THE (

CHAN

D DIS

re Tax, E

re Tax ary item

Tax

ary item

e period

ix) and of

(for conti

Place: Yamunanagar

Executive Director and Company Secretary Date: February 14, 2019

खबर संक्षेप

मलिक व सैनी के कारण हए दंगे : रणबीर शर्मा

चंडीगढ। पर्व आईजी रहे और अब पार्टी का गठन कर चुके रणबीर शर्मा ने बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पर हमला बोला व कहा कि दोनों समाज में जहर फैला रहे हैं, पूर्व में हुए दंगों के लिए सांसद सैनी, यशपाल मलिक जैसे लोग ही जिम्मेवार रहे हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी की ओर से आयोजित पत्रकार सम्मेलन में के रणबीर शर्मा ने सत्ताधारी दल पर भी हमला बोला व कहा कि अवैध माइनिंग और भर्ती को लेकरवे साक्ष्य के साथ मीडिया के सामने पेश होंगे। उन्होंने बसपा और राजकमार सैनी की पार्टी को प्रदेश का दुश्मन बताया व कहा कि प्रदेश में दंगों के लिए राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक सीधे-सीधे जिम्म्मेदार हैं, जबिक राज्य सरकार दोनों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। शर्मा ने कहा कि भाईचारा तोड़ने वालों को प्रदेश से हटाएंगे सभी को एकजुट करने का काम पार्टी करेगी। उन्होंने दावा किया कि जजपा और आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन पर विचार किया जा रहा है। पार्टी का जल्द ही समान विचारधारा के साथ में गठबंधन करने के

हरियाणा महिला कांग्रेस लगाएगी टेनिंग शिविर

विकल्प खोले हुए हैं।

चंडीगढ। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने हरियाणा महिला कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की है। चौहान ने कहा कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनका कार्यकाल भी 5 साल हो चुका है इसलिए आने वाले वक्त में किसी महिला चेहरे कोई स्थान देने वे उनको पदोन्नति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पंचकूला में 2 दिन का शिविर लगाने की की घोषणा की है जिसमें 20 व 21 फरवरी को पूरे प्रदेश की महिला कांग्रेस पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। दूसरे दिन ब्लॉक अध्यक्षों और विधानसभा कोऑर्डिनेटर बुलाए जाएंगे।

हरिभूमि न्यूज 🕪 यमुनानगर

आयुष विभाग में नौकरी दिलवाने

का झासा देकर तीन व्यक्तियों ने

24 यवाओं से 15 लाख रुपये हडप

लिए। पलिस ने तीनों के खिलाफ

केस दर्ज किया है। गांव छलौर

निवासी अमित कुमार ने बताया कि

था।

इच्छुक युवाओं को चोपड़ा गार्डन

स्थित उनके कार्यालय में संपर्क

उसकी मुलाकात जिला करनाल

के गांव बीबीपुर जाट्टान निवासी

रामबीर शर्मा, गांव संघोई निवासी

रतन लाल तथा रामपुर माजरा

निवासी नरेश कश्यप के साथ हुई।

विज्ञापन पढ़कर करीब 24 युवा वहां पर पहुंचे। आरोपितों ने उन्हें

आयुष विभाग में नौकरी दिलवाने

की बात कही। गांव स्तर पर काम

करने के 13 हजार तथा ब्लॉक

कॉर्डिनेटर के पद पर काम करने

वालों को 17 हजार रुपये वेतन देने

उसने वहां संपर्क किया तो

तीन के

खिलाफ

धोखाधड़ी

का केस

करने के लिए कहा था।

कुछ दिल पहले

अथर्व वैलफेयर

सोसायटी द्वारा

विज्ञापन आया

नौकरी लगने के

जिसमें

चुनाव और आचार संहिता की आहट से सचिवालय में भीड़

मुख्यमंत्री पहुंचे मारीशस, आने के बाद बीस से शुरू होगा बजट सत्र

योगेंद्र शर्मा 🕪 चंडीगढ़

हरियाणा मंत्रीसमूह की बैठक को लेकर एक दिन पहले बुधवार को हरियाणा सचिवालय पूरी तरह गुलजार रहा लेकिन गुरुवार को सूना नजर आया। अधिकांश मंत्री अपने-अपने हलकों और कार्यक्रमों के लिए फील्ड में गए हुए थे, जबकि मख्यमंत्री भी मारीशस में होने वाले गीता जयंती समारोह में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। 20 से हरियाणा विधानसभा के बजट-सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए वित्त विभाग के अफसर रात-दिन जुटे हैं। बता दें कि 12 फरवरी को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में आए थे। मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के साथ ही थपकी के बाद में सीएम मनोहर लाल का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। अब दूसरी तरफ प्रदेश में चनावी आहट और आचार संहिता लगने से पहले-पहले अपने टांसफर पोस्टिंग कराने वाले लोगों की संख्या बुधवार को मंत्रीसमूह की बैठक के बाद में खासी नजर आ रही थी। काफी समय बाद सचिवालय इतना

हरिभूमि ब्यूरो 🕪 चंडीगढ़

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 16 जिलों

की 40 सड़कों के सुदृढ़ीकरण के

लिए 160 करोड़ रुपये के टेंडर

आधार पर सुदृढ़ीकरण के निर्देश

दिए हैं, ताकि आमजन का

आवागमन सरल हो सके। लोक

निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने

बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों

इन यवाओं से ठगे पैसे

गांव छलोर निवासी अमित.

निवासी रवि कमार. जठलाना

निवासी जितेंद्र सिंह, दिनेश कुमार

राढ़ौर निवासी पालमी. बिलासपर

निवासी अमित, राजीव, मनोज

कुमार, सुखदास, अजय कुमार,

बृज मोहन, रविंद्र, सुमित, रमेश

कुंमार, पंकज, बलदेव, गौरव,

दिनेश, बेबी देवी व रजिया से

आरोपितों ने पैसे ठगे।

जसवीर, मांजा राम, असलम खान,

जल्द करेंगे गिरफ्तार

एसआई सतीश कुमार ने बताया

कि तीनों आरोपितों के खिलाफ

केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द

ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

का आश्वासन दिया। आरोपितों ने

उनसे आईडी, खाली अष्टाम व

प्रत्येक युवक से 40-40 हजार

ज्वाइनिंग लेटर देने का आश्वासन

दिया। कई दिन बाद जब ज्वाइनिंग

लेटर नहीं मिले तो उन्होंने

आरोपितों से संपर्क किया। मगर

आरोपितों से पैसे वापस मांगे तो

उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया

और दोबारा पैसे मांगने पर उन्हें

जान से मारने की धमकी दी।

आरोपितों ने उन्हें 15 दिन में

रुपये ले लिए।

मख्यमंत्री

की मंजुरी

के बाद अब

जल्द जारी

होंगे टेंडर

नौकरी लगाने का झांसा देकर

24 युवकों से हड़पे 15 लाख

आमंत्रित करने

के प्रस्ताव को

मंजूरी दी है।

उन्होंने नाबार्ड

के तहत इन

प्राथमिकता के

को

सड़कों

बैठक सचिवालय में होने के कारण सभी मंत्री चंडीगढ़ में मौजूद थे, इसीलिए दूर-दराज से आने वाले लोगों की भीड भी सचिवालय में जमा थी। सीएम मनोहरलाल मंत्रीसमूह की बैठक के बाद गुरुग्राम व दिल्ली के लिए रवाना हए, जिसके बाद उन्हें मारीशस के लिए निकलना था। सीएम को मारीशस में कई दिनों तक चलने वाले गीता जयंती महोत्सव में हिस्सा लेना है इसमें उन्हें तीन से चार दिन लगेंगे। वहां से लौटने के बाद 20 फरवरी से हरियाणा के बजट सत्र की शरुआत होगी। वहीं लोगों में फरवरी अंत अथवा मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाने व उसके बाद में तीन से चार माह तक कामकाज लगभग ठप पड जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा और माहौल के बीच में अपने तबादले पोस्टिंग आदि को लेकर लोगों का सिफारिश लेकर पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। सीएम और उनके मंत्री व अधिकारी पहले जहां कुरुक्षेत्र में पीएम के 12 फरवरी के

१६० करोड से ४० सडकें होंगी चकाचक

में नाबार्ड के तहत बनी हुई कुछ

सड़कों की जर्जर स्तिथि को दुरुस्त

करने को लेकर विशेष कार्य योजना

तैयार की गई थी। मुख्यमंत्री ने इसी

क्रम में अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र

भिवानी, चरखी दादरी, पलवल,

हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद,

करनाल, नूंह, महेंद्रगढ़, रोहतक,

सोनीपत, झज्जर जिले की 40

सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए

टेंडर आमंत्रित किए जाने के

प्रस्ताव को मंजुरी दी है। मंत्री राव

नरबीर सिंह ने बताया कि पंचकला

जिला में पंचकला-मोरनी तक

17.700 किमी का 4.72 करोड

रुपये से, भिवानी में झांनवाड़ी

मिरान सिवानी रोड 20.15 किमी



मारीशस में जाने से पहले मारीशस के उप प्रधानमंत्री इवान लेस्ली से दिल्ली के हवाई अडडे पर मुलाकात करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल।

प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार से की शिष्टाचार मेंट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ से मॉरिशस के पोर्ट लुईस में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मॉरिशस व हरियाणा के बीच सहयोग पर चर्चा की। मनोहर ने मॉरिशस में गीता महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी आपसी सहयोग से ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक क्षेत्र के अलावा पर्यटन, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, टैक्सटाईल, इलैक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में हरियाणा व मॉरिशस आपसी सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग में मॉरिशस के पास अत्याधनिक तकनीक है जिसका हरियाणा में लाभ लिया जा सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जुगनाथ ने कहा कि मॉरिशस में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण है। अतः भारत के शिक्षण संस्थान भी सहयोग के लिए आगे आ सकते हैं।

तक 6 करोड़ रुपये से, पलवल में

पृथला से धातीर रोड 15.30 करोड़

रुपये एवं होडल से खाम्बी वाया

पैंगालतु तक 5.18 करोड़ रुपये से,

सिरसा में कालुआना से गंगा रोड

तक 5.34 करोड़ रुपये से, महेंद्रगढ़

में बौंद कलां-दादरी-चिराया-

कनीना-अटेली सम्पर्क मार्ग 19.13

करोड़ रुपये से, सोनीपत में कथूरा

से धनाना सम्पर्क मार्ग 8.29 करोड़

शामिल है। उन्होंने कहा कि

विभिन्न सड़कों को मजबूती मिलने

से न केवल वाहन चालकों के लिए

आवागमन सरल होगा, अपितु

उन्हें आवागमन में समय की भी

REGISTRAR

बचत होगी।

Pt. B. D. Sharma University of

Health Sciences, Rohtak

It is for the information of all concerned that document

verification of the candidates as per schedule available on

university websites for the Group-C posts advertised vide

Advt. No. 07/2018 for which written screening test was

held on 27.1.2019 will be done in the Administrative

Block of University on 18th, 20th and 21st February 2019.

Please visit University website www.uhsr.ac.in &

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

विज्ञापन सं. 3(॥)/2017 और घोषणा दिनांक 29.10.2018 के प्रत्युत्तर में एचीवीपीएनएल

पावर विभाग हरियाणा में लेखा अधिकारी के एक पद हेतु उम्मेदवारों की सामान्य जानकारी हेतु

एतद द्वारा घोषणा की जाती है। जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है / रद्द किये

जाने योग्य है की सूची इस घोषणा के साथ आयोग की वेबसाइट अर्थात्

. आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित **सची-I** और **सची-II** में वर्णित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी

अपेक्षित दस्तावेजों सहित ऑनलाइन ऑवेदन प्रपत्र की मुद्रित/हार्ड कॉपी के जमा न करवाने और

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के साथ–साथ अपेक्षित दस्तावेजों के निर्धारित अवधि अर्थात् 13.11.2018

आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://hpsc.gov.in पर प्रदर्शित सची-III में वर्णित

उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विभिन्न अन्य कारणों से रद्द करने योग्य है, उपरीक्त सची में वर्णित

उम्मीदवारों को प्रस्तावित निरस्तीकरण के विरूद्ध प्रतिवेदन इस घोषणा के प्रकाशन की तिथि

से 15 दिन की अवधि के अंदर जमा करवाने का परामर्श दिया जाता है। जिसमें विफल रहने

पर निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस सम्बन्ध में

निर्णय उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप मैरिट पर किया जाएगा। आयोग डाक अथवा कोरियर सेवा

से देरी में आयोग के कार्यालय में प्राप्त होने की वजह से सीधे ही रद्द कर दी गई है।

द्वारा किये गये किसी प्रकार के विलम्ब हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

www.pgimsrohtak.nic.in for further details.

रुपये से सुदृढ़ीकरण मुख्य रू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सभाष बराला ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रदेश की जनता नें जींद उपचुनाव और पांच नगर निगमों में भाजपा को जिताकर साफ कर दिया है कि सरकार का कामकाज बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि मनोहरलाल के नेतृत्व में साबित हो चुका है कि प्रदेश के अंदर इसरें बेहतर कामकाज किसी सरकार ने नहीं किया बल्कि परिवारवाद व क्षेत्रवाद में फंसे रहे अब इस तरह की सियासत को लोगों ने नकार दिया है।

आचार संहिता का डर

लोकसभा और विधानसभा चनावों को ध्यान में रखते हुए लोगों में अपने काम इससे पहले पहले निपटा लेने की होड़ लगी हुई है। माना जा रहा है कि फरवरी अंत संहिता लगने जा रही है। जिसके साथ ही तीन से चार माह तक सभी काम लटके रहेंगे। इस दौरान अफसरशाही थोड़ी राहत में होगी से बंद हो जाएगी। सात ही सियासी

अथवा पहले सप्ताह मार्च में आचार क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग काम काम आचार संहिता के कारण पुरी तरह नेता भी सचिवालय में कम हरियााणा

मेरा परिवार-भाजपा परिवार अभियान : चालीस लाख स्टीकर व १० लाख झंडे लगाने का लक्ष्य

चंडीगढ। लोकसभा चुनावों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भाजपा हाईकमान द्वारा दस लाख इांडे और 40 लाख स्टीकर लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे 20 फरवरी तक पूरा करना होगा। इसके लिए भाजपा नेता और उनकी टीम जुट गई हैं। भाजपा अपनी केंद्र, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बुते अब घर-घर पहुंचकर प्रदेशवासियों को मेरा परिवार-भाजपा परिवार अभियान में जोड़ने में जुट गई है। हर बूथ पर घरों के मुख्य द्वार पर स्टिकर और छत पर झंडा लगांने का अभियान रफ्तार पकड़ रहा है और 20 फरवरी तक चलने वाले अभियान में अब तक २ लाख घरों पर झंडे लगाए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम इस अभि ख झंडे और 40 लाख स्टिकर लगाने का लक्ष्य रखा है।

ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED CIN: L23423HR1933PLC000097

Regd. Office: Radaur Road, Yamunanagar — 135001, Haryana. **Ph:** 01732-661061/62, **Fax No.:** 01732-250991 Email Id: roynr@isgec.com, Website: www.isgec.com

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the Company has or February 14, 2019 (i) Completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid business reply envelope to the Members, who do not have registered e-mail ids; and (ii) E-mailed the Postal Ballot Notice to the Members who have registered e-mail ids:

for seeking approval of Members, in respect of the business contained in the said Postal Ballot Notice dated February 09, 2019, by way of Postal Ballot/Re

All Members are, therefore, informed that:

- a) The Postal Ballot Notice along with the explanatory statement and other annexures is displayed on the website of the Company www.isgec.com and also on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case a Member is desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate, he or she may send an e-mail to roynr@isgec.com or rta@alankit.com. The Registrar Company shall forward the same along with postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Member.
- The voting through Postal Ballot and remote e-voting shall comm Friday, February 15, 2019 at 9:00 a.m. and shall end on Saturday, March 16 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled thereafte and not be allowed beyond 5:00 p.m. on March 16, 2019.
- The voting rights of the Members (through Postal Ballot Form or Remote e voting) shall be reckoned on the Equity Shares held by them as on the close o the business hours on Saturday, February 09, 2019, being cut-off date fixed for this purpose. Members who are not a Member as on the said cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- The Postal Ballot form, duly completed and signed by the Member(s) shall have to be returned in the postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Scrutinizer so as to reach the Scrutinizer not later than Saturday, March 16, 2019 by 5:00 p.m. Any Postal Ballot form received after the said date and time shall be treated as if the reply from the Member(s has not been received.
- In case of queries or grievances relating to Postal Ballot/ Remote e-voting Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for Members and Remote e-voting user manual for Members at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.: 1800 222 990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at the designated e-mail ids: evoting@nsdl.co.in or at telephone numbers : 022–24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means Members may send an e-mail to roynr@isgec.com or rta@alankit.com. The results of voting by Postal Ballot will be declared on Monday, March 18
- 2019 at 5:00 p.m. at the corporate office at A-4, Sector-24, Noida-201301, U.P. and Registered Office at Radaur Road, Yamunanagar, Haryana-135001. The result along with the scrutinizer's Report will be displayed at the Registered Office of the Company. The result shall be communicated to the Stock Exchange and the same will be displayed on Companies website www.isgec.com as well as on the NSDL website www.evoting.nsdl.com. Ir addition, the result will also be published in the newspaper for information o

For ISGEC Heavy Engineering Limited

lace : Yamunanagar ate : February 14, 2019

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

(S. K. Khorana) Executive Director and Company Secretary

हरियाणा लोक सेवा आयोग बेज नं. १-१०, ब्लॉक-बी, सेक्टर-४, पंचकूला

घोषणा

विभिन्न समाचार-पत्रों में 29.12.2018 (अन्तिम तिथि 05.02.2019) को विज्ञा. सं. 5(ii) ऑफ 2018 के प्रत्युत्तर में श्रम विभाग, हरियाणा में चिकित्सा अधिकारी एचसीएमएस-1 के 41 पदों के तहत आवेदन कर चुके उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी हेत एतद द्वारा घोषणा की जाती है। अब आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की हार्ड प्रति मंगाने का निर्णय लिया है। अतः सभी उम्मीदवारों जिन्होंने उपरोक्त पदों के तहत आवेदन किया है, को एतद द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र के साथ विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने प्रमाण-पत्रों / आवेदन प्रपत्र में दावा किये गये समर्थित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति आयोग के कार्यालय सचिव, एचपीएससी, बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला (हरियाणा) के पास पंजीकृत डाक के माध्यम से अथवा स्वागत कक्ष में व्यक्तिगत रूप से इस प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के अंदर और 25.02.2019 को अप. 5.00 बजे के उपरांत नहीं, तक जमा करवाने के लिये निर्देशि किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस भर्ती हेतु उनके उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ऑनलाइन प्रपत्र की हार्ड प्रतियों की सुपुर्दगी में डाक अथव कोरियर सेवा द्वारा किये गये किसी प्रकार के विलम्ब हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

यह सूचना आयोग की वेबसाइट अर्थात् <u>http://hpsc.gov.in</u> पर भी उपलब्ध है दिनांक: 14.02.2019 हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

DCB BANK

. रतदद्वारा जन साधारण को सचना दी जाती है कि डीसीबी बैंक लिमिटेड, (पूर्वतः डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड) (इसमें आगे . बैंक" कहा गया है), कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक बैंकिंग कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 में है, यहां नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बैंक में बंधक रखे स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी सह बिक्री "जैसा है जहां है आधार", जैसा है जो भी हैं , 'जो कुछ भी हैं' तथा "कोई उपाय नहीं' आशर पर करने हेतु अधिसूचना जारी कर रही है। ये सभी स्वर्ण आमूषण बैंक के निम्नवर्णित कर्जदार के ऋण खाते के संबंध में बैंक में बंधक रखे गए हैं। निम्नवर्णित स्वर्ण आमूषणों की बिक्री ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली के लिए की जा रही है, जैसाकि यहां नीचे वर्णित है :-

†.	ऋण खाता सं.	ग्राहक का नाम	भार (ग्राम में)	नालामा का तिथ संपर्क व्यक्ति एवं पता				
	14642100014465	जब्बर जंग सिंह	155					
	14642100015297	रजत राना	91	21 एवं 22				
	14642100013396	हजारा सिंह	62	फरवरी 2019				
	14642100013378	रविन्द्र सिंह	58					
	14642100010450	प्रेम चंद	50	श्री मनीष शर्मा टेलिफोन न				
	14642100008655	कुलवीर सिंह	52	(01743) 224 811 /				
	14642100015677	प्रेम चंद	42	12 / 7876013891				
	14642100012759	गुरजीत सिंह	43	डीसीबी बैंक,				
	14642100010326	अमरीक सिंह	35	ज्ञासाबा ब के. लक्ष्मी काम्पलेक्स				
0	14642100006361	मलकीत राम	31	गुहला रोड, चीका				
1	14642100010186	गुरप्यार सिंह	30	पिन-136034				
2	14642100013165	सचिन राना	26	जिला कैथल हरियाणा—136034				
3	14642100017198	रंजीत सिंह	23	61(41-11-100004				
4	14642100013110	गुरजीत सिंह	20					
5	14642100014076	जगप्रीत सिंह	12					
बरि	बिक बैंक के पाधिकत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषण बेचने का निर्णय किया है अतः यह नीलामी							

जबाक बक्र के प्राप्तकृत आधकारा ने उपराक्त स्वर्ण आनूषण बचन का निगय किया है, अर्त यह नालाना सह बिक्री सचना आज संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को विशेष रूप से तथा जन साधारण को सामान्य रूप से सुचित करने के लिए प्रकाशित की गई है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषण उपरिवर्णित तिथियों एवं स्थानों पर सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाएंगे। इच्छुक बोलीदाता आगे अन्य किसी जानकारी के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी की तिथि को अथवा पहले सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित कर्जदारों / बंधकदाताओं को नीलामी की नियत तिथि से एक दिन पूर्व तक उपरोक्त ऋण खाते में बकाया राशि का पूर्ण भुगतान उस पर सभी ब्याज तथा खर्चों सहित करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें असफल रहने पर इन स्वर्ण आमूषणों की नीलामी उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार की

जानकारी के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं, जो तथापि, उक्त विवरणों में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन, विलोपन संगति अथवा कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

नई दिल्ली एवं वाराणसी रेलवे स्टेशनों के बीच वन्द्रे भारत एक्सप्रेस (टी-18) ट्रेन सेट सेवा का शुभारम्भ

समस्त् रेलयात्रियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर् रेलवे द्वारा दिनांक 17.02.2019 से नई दिल्ली एवं वाराणसी के बीच रेलगाड़ी सं. 22435/22436 वन्द्रे भारत एक्सप्रेस (टी-18) की नियमित सेवा का शुभारम्भ किया जा रहा है। वन्दे भारत एक्सप्रेस की समय — सारणीँ एवं ठहराव निम्नानुसार होंगे :--

-						
22436/22435 नई दिल्ली — वाराणसी — नई दिल्ली वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी (सप्ताह में 5 दिन)						
गाड़ी सं. 22436		स्टेशन	गाड़ी सं. 22435			
आगमन	प्रस्थान	स्टराग	आगमन	प्रस्थान		
	06:00	नई दिल्ली	23:00			
10:18	10:20	कानपुर सेंट्रल	18:30	18:32		
12:23	12:25	इलाहाबाद	16:35	16:37		
14:00		वाराणसी		15:00		

चलने के दिन : 22436 नई दिल्ली से तथा 22435 वाराणसी से प्रतिदिन (सोमवार एवं बृहस्पतिवार को छोड़कर) दिनांक 17.02.2019 से स्थान : एग्जीक्यूटिव कार एवं वाता. कुर्सीयान

उद्घाटन समय–सारणी : वन्दे भारत एक्सप्रेस (टी-18) रेलगाड़ी का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष रेलगाड़ी सं. 04036 के रूप में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच 15.02.2019 को 10:45 बजे किया जायेगा तथा वापसी सेवा रेलगाड़ी सं. 04035 के रूप में वाराणसी से नई दिल्ली के लिए दिनांक 16.02.2019 को चलेगी एवं इसकी नियमित सेवा नई दिल्ली से दिनांक 17.02.2019 से प्रारंभ होगी।

उदघाटन यात्रा की समय – सारणी

गाड़ी सं. 04036		स्टेशन	गाड़ी सं. 04035			
आगमन	प्रस्थान	स्टराग	आगमन	प्रस्थान		
	10:45	नई दिल्ली	14:25			
15:05	15:45	कानपुर सेंट्रल	09:55	09:57		
17:50	18:30	इलाहाबाद	08:00	08:02		
20:30		वाराणसी		06:00		
दलालों से राज्याल अधिकृत रेल ट्रेवल एजेंट से ही खरीदें।						
सुरक्षा हेल्पलाईन नम्बर 182 एवं रेलयात्री शिकायत हेल्पलाईन नम्बर 138						
हमें फॉलो करें :- उत्तर रेलवे सहैव आपकी सेवा में						

PRDH-11/1819/25600/75462 Dt. 14.02.19

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान

व्यक्ति के हत्यारे को आजीवन कारावास

हरिभुमि न्यूज 🕪 जींद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारंग की अदालत ने ढाई साल पहले गांव मलिकपुर में व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गांव मलिकपुर निवासी भीमा ने नौ जुलाई 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका जीजा गांव बांसा करनाल निवासी रामपाल गांव मलिकपुर में परिवार समेत रह रहा था। आठ जुलाई की रात को ढाई वर्ष पहले ससुराल में रह रहे व्यक्ति की हत्या की थी

पांच हजार का जुर्माना लगाया



रामपाल व गांव मलिकपर निवासी कृष्ण शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई। कष्ण ने रामपाल की बेरहमी से पिटाई की, फिर कपडे से गला घोंट दिया। दोनों को झगडता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रामपाल को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर

दिनांक : 13.02.2019

https://hpsc.gov.in पर प्रदर्शित कर दी गई है।

सफीदों थाना पुलिस ने भीमा की शिकायत पर कृष्ण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारंग की अदालत ने कृष्ण को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सुरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूल

हस्ता/- स

RRUINIK KODE **CORRIGENDUM NOTICE**

WEBSITE OF THE BOARD CORP./AUTH NAME OF DEPARTMENT OFFICER/CONTACT DETAILS/ EMAIL OLD REFERENCE/NIT NO. NATURE OF CORRIGENDUM 1ST CORRIGENDUM PTP/POM-(OPENING DT.04.01.2019 CLOSING DT. 20.02.2019 UPTO 13:00 HRS.)
SUPPLY OF AIR BLOWER OF ASH HANDLING PLANT OF UNIT-7& 8 PTPS, PANIPAT 0180-2566015 **HPGCL** www.hpqcl.orq.in EVENT NO. 110210 2ND CORRIGENDUM PTP/POM-222117 EVENT NO. 106408 2ND CORRIGENDUM PTP/POM 0180-2566015 mtcplgl@gmail.co (OPENING DT.28.11.2018 CLOSING DT. 20.02.2019 UPTO 13:00 HRS.)
SUPPLY OF DUPLEX BASKET FILTER FOR COAL MILL OF UNIT-7, PTPS, PANIPAT 3 222114 EVENT NO. 106420 HPGCL NIT NO.31/CWD-2/VOL X/HVPN/2018-19 HVPNL LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION IS EXTENDED UPTO 22/02/2019 (13:00 HRS) 0172.2583789 pro(hvpn.org.in (ONLINE TENDER NO.109488) E-TENDER NOTICE NO. 46/CWFG-CORRIGENDUM NO. IV ONLINE TENDER IS INVITED FOR EXTENSION OF SWITCH HOUSE 0172-2583789 HVPNL www.hvpn.org.in 22.11.2018 COST/EARNEST MONEY (IN LACS):- RS. 35.89 LAC/RS. 0.718 LAC.LAST DATE OF ONLINE BI SUBMISSION:- 28.02.2019 (11:00 A.M) 14/CCD-291/VOL-IV DATED 21.12.2018 0172-2583789 HVPNI THE LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION IS EXTENDED UP TO 26.02.2019 www.hvpn.org.in CORRGENDUM NO 1 FOR REPAIR OF APPROCH ROAD AND YARD ROAD AND YARD AT www.hvpn.org.in DATED 23.01.2019 220 KV S/STN SALEMPUR. (CIVIL WORKS). OPENING DATED 15.02.2019 pro@hvpn.org.in CH-14/CE/HPPC/SE C&R-1/NIT-76 DATED11.2.2019 cehppc@gmail.com 01722586836 UHBVN EXTENTION IN TIME PERIOD OF BID SUBMISSION www.uhbvn.org.in